

५. आधुनिक दर्शनाच्या संकल्पना तथा विषय स्पष्ट करा.

१५

किंवा

लघु टीपा लिहा.

(अ) प्राकृतवाद

८

(ब) सत्तावाद.

७

AQ – 440

M. A. (Yogashatra) (Part – II) Examination

Paper – II

PHILOSOPHY OF YOGA

P. Pages : 6

Time : Three Hours]

[Max. Marks : 75

Note : (1) Solve all questions.

(2) All questions carry equal marks.

1. Explain in brief the Yoga in view of Shri. Aurobindo.

OR

What are the basic characteristics of Indian philosophy ? Explain in detail. 15

2. Explain in detail the Hathayoga.

OR

Write in detail the salient features of Dnyanayoga. 15

3. Explain the fundamental theories of Buddhism.

OR

Elucidate the cardinal doctrines of Mimansa. 15

4. What is Pranayam ? Explain it along with its types.

OR

Elucidate the definition and types of Dharana. 15

5. Explain the concepts and contents of Modern Philosophy.

OR

Write short notes on :—

- (a) Naturalism. 8
(b) Existentialism. 7



(मराठी माध्यम)

सूचना : (१) सर्व प्रश्न आवश्यक आहेत.

(२) सर्व प्रश्नांना समान गुण आहेत.

१. श्री योगी अरविन्द नुसार योगाचे स्वरूप समजावा.

किंवा

भारतीय दर्शनाची मौलिक तत्त्वे कोणती? विशद करा. १५

२. हठयोग सविस्तर विशद करा.

किंवा

ज्ञानयोगाची प्रमुख तत्त्वे विशद करा.

१५

३. बौद्धदर्शनाची मौलिकतत्त्वे विशद करा.

किंवा

मीमांसाशास्त्राचे प्रमुख सिद्धांत स्पष्ट करा.

१५

४. प्राणायामाची व्याख्या लिहून प्रकारासहित विशद करा.

किंवा

धारणाची व्याख्या लिहून धारणेचे प्रकार विशद करा. १५

(हिंदी माध्यम)

सूचनाएँ : (१) सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
(२) सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

१. श्री योगी अरविन्द के अनुसार योग का स्वरूप स्पष्ट कीजिए।

अथवा

भारतीय दर्शनके मूलभूत तत्त्व विशद कीजिए। १५

२. हठयोग सविस्तर स्पष्ट कीजिए।

अथवा

ज्ञानयोग के प्रमुख तत्त्व स्पष्ट कीजिए। १५

३. बौद्ध दर्शन के मौलिक तत्त्व विशद कीजिए।

अथवा

मीमांसाशास्त्रके प्रमुख सिद्धान्त स्पष्ट कीजिए। १५

४. प्राणायाम की व्याख्या लिखकर उसे प्रकार सहित स्पष्ट कीजिए।

अथवा

धारणा की व्याख्या और प्रकार लिखिए। १५

५. आधुनिक दर्शन की संकल्पना और व्याख्या विशद कीजिए।

१५

अथवा

लघुटिप्पणी लिखिए।

(अ) प्राकृतवाद।

८

(ब) सत्तावाद।

७

